



उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक **अध्यादेश** लाने का प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें प्रश्नपत्र लीक करने वालों के लिये दो वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सज़ा तथा एक करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है।

मुख्य बिंदु

- उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अध्यादेश ने सभी अपराधों को **संज्ञेय और गैर-ज़मानती** बना दिया है।
 - इन अपराधों की सुनवाई सत्र न्यायालयों द्वारा की जाएगी और ये गैर-समझौता योग्य होंगे तथा इनमें ज़मानत के लिये सख्त प्रावधान होंगे।
- अध्यादेश में **उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग**, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, **UP बोर्ड**, राज्य विश्वविद्यालयों और उनके द्वारा नामित **प्राधकियों, नकियों या एजेंसियों** द्वारा आयोजित परीक्षाएँ शामिल हैं।
 - इसमें सरकारी नौकरियों में **नियमितीकरण और पदोन्नति के लिये परीक्षाएँ** भी शामिल होंगी।
- अध्यादेश में **फर्ज़ी प्रश्नपत्र वितरित करने और फर्ज़ी रोज़गार वेबसाइट बनाने पर भी दंड का प्रावधान है।**
 - परीक्षाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालने का दोषी पाए जाने वाली कंपनियों और सेवा प्रदाताओं को **ब्लैक लिस्ट** में डालने की अनुमति देता है।
 - यदि कोई परीक्षा प्रभावित होती है, तो **वित्तीय बोझ संबंधित लोगों से वसूला जाएगा।**

अध्यादेश

- यह राज्य या केंद्र सरकार द्वारा उस समय जारी किया गया आदेश या कानून है, जब विधानमंडल या संसद सत्र में नहीं होता है।
- अध्यादेश जारी करने की विधायी शक्ति एक **आपातकालीन शक्ति** की प्रकृति है, जो केवल **आपातकालीन स्थिति** से निपटने के लिये कार्यपालिका को प्रदान की जाती है।
- अध्यादेशों के संबंध में **संवैधानिक प्रावधान:**
- COI का **अनुच्छेद 123** राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है, जबकि **अनुच्छेद 213** राज्यपालों को विधानमंडल के सत्र में न होने पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है।

संज्ञेय अपराध (Cognisable Offences)

- **संज्ञेय अपराधों** में कोई अधिकारी न्यायालय से वारंट प्राप्त किये बिना ही किसी संदिग्ध व्यक्ति का संज्ञान ले सकता है और उसे **गरिफ्तार कर सकता है**, यदि उसके पास यह "विश्वास करने का कारण" है कि उस व्यक्ति ने अपराध किया है तथा वह इस बात से संतुष्ट है कि कुछ नश्वरि आधारों पर गरिफ्तारी आवश्यक है।
- गरिफ्तारी के **24 घंटे** के भीतर **अधिकारी को** न्यायिक मजिस्ट्रेट से **हरिसत की पुष्टिकरानी** होगी।
- **विधिआयोग की 177वीं रिपोर्ट** के अनुसार, संज्ञेय अपराध वे हैं जिनमें **तत्काल गरिफ्तारी** की आवश्यकता होती है।
- संज्ञेय अपराध आमतौर पर जघन्य या गंभीर प्रकृति के होते हैं जैसे- **हत्या, बलात्कार, अपहरण, चोरी, दहेज हत्या** आदि।
- **प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR)** केवल संज्ञेय अपराधों में ही दर्ज की जाती है।

गैर-ज़मानती अपराध

- कोई भी अपराध जो **CrPC** की प्रथम अनुसूची या किसी अन्य कानून के तहत ज़मानतीय नहीं बताया गया है, उसे गैर-ज़मानती अपराध माना जाता है।
- गैर-ज़मानती अपराध का आरोपी व्यक्ति ज़मानत का अधिकार नहीं ले सकता। CrPC की धारा 437 में यह प्रावधान है कि गैर-ज़मानती अपराध के मामले में ज़मानत कब ली जा सकती है।

